

प्रेस नोट दिनांक-28.10.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में इनामी, टॉप-10, हिस्ट्रीसीटर, गैंगेस्टर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में श्री अरुण कुमार पाठक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा तथा उनकी टीम द्वारा हिस्ट्रीसीटर/टॉप-10 अपराधी मोनू उर्फ अवनीश तिवारी पुत्र सतीश तिवारी तथा अभियुक्त प्रदीप करवरिया उर्फ रज्जू पुत्र संतोष कुमार निवासीगण शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी को 01-01 अवैध तमंचा व 01-01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.10.2020 को उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा, उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह व उ0नि0 श्री राधाकृष्ण तिवारी पुरानी कोतवाली के पास अपने-अपने हमराहियों के साथ मूर्ति विसर्जन डियूटी पर थे कि कुछ व्यक्तियों द्वारा सूचना दी गयी कि दो व्यक्ति अपने हाथों में तमंचा लिये हुये हैं और आने जाने वाले लोगों को रोककर जबरजस्ती लूटने का प्रयास कर रहे है। इस सूचना पर उपरोक्त तीनों उपनिरीक्षक अपने-अपने हमराहियों के साथ भैरोपागा अंडर ब्रिज के पास से अभियुक्त मोनू उर्फ अवनीश तिवारी पुत्र सतीश तिवारी तथा अभियुक्त प्रदीप करवरिया उर्फ रज्जू पुत्र संतोष कुमार निवासीगण शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी को 01-01 अवैध तमंचा व 01-01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 555/2020 धारा 385/393 भादवि0 व मु0अ0सं0 556 व 557/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त मोनू उर्फ अवनीश तिवारी उपरोक्त थाना कोतवाली कर्वी का हिस्ट्रीसीटर एवं टॉप-10 अपराधी है। उपरोक्त अपराधी मोनू उर्फ अवनीश डकैती, लूट,चोरी, हत्या के प्रयास, विस्फोटक पदार्थ रखना एवं प्रयोग करना आदि अपराधों का अभ्यस्त अपराधी है, क्षेत्र में काफी आतंक का पर्याय बना हुआ था। इसके विरुद्ध थाना पहाड़ी व कोतवाली कर्वी में उपरोक्त अपराधों से सम्बन्धित करीब 15 अभियोग पंजीकृत हैं जिसका अपराधिक इतिहास निम्नवत है।

अभियुक्त मोनू उर्फ अवनीश तिवारी का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 60/14 धारा 286 भादवि कर्वी
2. मु0अ0सं0 741/14 धारा 147/148/394 भादवि कर्वी
3. मु0अ0सं0 848/14 धारा 342/323/504/506 भादवि कर्वी
4. मु0अ0सं0 688/15 धारा 323/504/506/307 भादवि व 07 क्रि0ला0 अवे0 एक्ट कर्वी
5. मु0अ0सं0 690/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट कर्वी
6. मु0अ0सं0 900/15 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट कर्वी
7. मु0अ0सं0 251/18 धारा 147/452/323/504/ भादवि कर्वी
8. मु0अ0सं0 391/18 धारा 394/411 भादवि0 व 12/14 डीएए एक्ट कर्वी
9. मु0अ0सं0 89/18 धारा 457/380 भादवि पहाड़ी
10. मु0अ0सं0 60/14 धारा 286 भादवि कर्वी
11. मु0अ0सं0 11/19 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट कोतवाली कर्वी
12. मु0अ0सं0 96/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पहाड़ी
13. मु0अ0सं0 95/2020 धारा 307/504/506 भादवि0 पहाड़ी
14. मु0अ0सं0 555/2020 धारा 385/393 भादवि0 कर्वी
15. मु0अ0सं0 556/2020 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट कर्वी

बरामदगी:-

02 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा
2. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह
3. उ0नि0 श्री राधाकृष्ण तिवारी

4. आरक्षी अखिलेश यादव
5. आरक्षी अरुण यादव
6. आरक्षी आकाश

(2). आज दिनांक-28.10.2020 को श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा श्रीमती रेखा यादव ब्लाक प्रमुख पहाड़ी एवं श्री विपिन कुमार सिंह खण्ड विकास अधिकारी की उपस्थिति में थाना पहाड़ी में किचिन/मैस का शिलान्यास किया गया।

इस अवसर पर श्री श्रवण कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी, श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी पीआरओ0 पुलिस अधीक्षक, इ0ब्रजेन्द्र सिंह यादव अवर अभियन्ता एवं अन्य अधि/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). 30प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं महिला कल्याण व बाल विकास के लिए चलाये जा रहे महाअभियान मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक-28.10.2020 समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा कस्बे एवं विभिन्न ग्रामों एवं कस्बे के बस स्टैण्ड, बाजारों, कोचिंग सेंटरों, स्कूलों में तथा एण्टी रोमियो टीम थाना कोतवाली कर्वी द्वारा जनसेवा इण्टर कॉलेज कर्वी, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा शांति देवी इण्टर कॉलेज पहाड़ी में, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा सकरौंहा कॉलोनी एवं ग्राम टिकुरी में, एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा कृषक इण्टर कॉलेज भौरी में, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज में जाकर छात्राओ/बालिकाओं/महिलाओं को वूमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया। महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। जागरूकता गोष्ठी में सभी से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया।